

वस्त्र मंत्रालय
सितम्बर, 2018 के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सार

1. **नीतिगत निर्णय:** पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विद्यमान अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों की वैधता को बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2018 तक कर दिया गया है।
2. **महत्वपूर्ण उपलब्धियां:**
 - i. **स्वच्छता ही सेवा अभियान:**
 - माननीय वस्त्र मंत्री ने 15 सितम्बर, 2018 को मंत्रालय और इसके संगठनों का 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का उद्घाटन किया।
 - माननीय वस्त्र मंत्री ने ओखला कलस्टर में 'श्रमदान' और साफ-सफाई अभियान में तथा ओखला औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने सतत आजीविका में योगदान देने के एक माध्यम के रूप में अवशिष्ट सामग्री से कपड़ा बनाने के परिधान उद्योग के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने एक ज्यादा स्वच्छ और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए 'श्रमदान' में शामिल होने का अनुरोध किया।
 - सचिव (वस्त्र) ने 17.09.2018 को मंत्रालय तथा इसके संगठनों के कर्मचारियों को 'स्वच्छता' पर शपथ दिलाई। अभियान के दौरान वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न वस्त्र कलस्टरों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के श्रमदान में शामिल थे।
 - मंत्रालय के साथ-साथ इसके अधीन आने वाले संगठनों द्वारा कार्यालय परिसरों में बैनरों/स्टैंडी के प्रदर्शन, स्वच्छता पर कार्यशालाओं और स्वच्छता अभियानों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जागरूकता अभियान जैसे अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे।
 - ii. **हस्तशिल्प क्षेत्र:**

माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा में दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में 8 शिल्प गुरुओं तथा 25 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं (9 महिला शिल्पियों सहित) को हस्तशिल्प अवार्ड प्रदान किए गए।
 - iii. **हथकरघा क्षेत्र:** घरेलू ग्राहकों में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने तथा हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों को सीधे ही ग्राहकों को बेचने में समर्थ बनाने के लिए सितम्बर, 2018 के दौरान दिल्ली, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कोलकाता, चैन्नई तथा भुवनेश्वर में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा एक्सपो विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजपथ, नई दिल्ली में आयोजित 'पर्यटन पर्व' में भी भाग लिया। पेरिस तथा टोक्यो में 19 से 21 सितम्बर, 2018 तथा 7 से 10 सितम्बर, 2018 के दौरान आयोजित

इंडिया ट्रेड फेयर तथा हूज नेक्स्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय मेलों में क्रमशः 21 और 20 प्रतिभागियों के साथ भाग लिया।

- iv. **कपास:** सितम्बर, 2018 के दौरान कपास की अखिल भारतीय आवक 2.14 लाख गांठें थी। चूंकि सितम्बर, 2018 में कच्ची कपास का बाजार मूल्य अधिकतर समय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर चल रहा था, भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी के अंतर्गत केवल 254 गांठों की खरीद की गई। 01 अक्टूबर, 2018 को शुरू होने वाले कपास वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने व्यापक तैयारियां की हैं और वर्ष 2018-19 में एमएसपी में 26-28% की वृद्धि के मद्देनजर 331 खरीद केंद्र खोले हैं।
- v. **विद्युतकरघा क्षेत्र:** विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2018 के दौरान 8,25,920 रुपए के भारत सरकार के प्रीमियम के साथ विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 5,024 विद्युतकरघा कामगारों को पंजीकृत किया गया। संशोधित समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2018 के दौरान सब्सिडी के रूप में 2.75 करोड़ रुपए जारी किए गए तथा 2018-19 के दौरान 7.64 करोड़ रुपए की वृद्धिशील राशि जारी की गई थी।
- vi. **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** सितम्बर, 2018 के दौरान संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन में से 3.71 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा 0.19 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता से एक यूआईडी जारी की गई है। तथापि, कुल 366 मामलों की संवीक्षा की गई तथा वे अनुमोदित प्रक्रिया के अधीन हैं जिनकी अनुमानित परियोजना लागत 1938.65 करोड़ रुपए है तथा सब्सिडी आवश्यकता 128.55 करोड़ रुपए है।
- vii. **लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्ययन दौरा:** पीएसी (2018-19) के अध्ययन दौरे के दौरान 17.09.2018 को विशाखापट्टनम में सीएंडएजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 52 पर आधारित टीयूएफएस की निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएंडएजी की उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
- viii. **राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) की बोर्ड मीटिंग:** सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में 20 सितम्बर, 2018 को कोलकाता में एनजेबी के बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड ने 'सामान्य पटसन संसाधन केंद्र' के सृजन सहित पटसन विविधीकृत क्रियाकलापों पर बल देने की आवश्यकता पर चर्चा की तथा वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया।
